

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय में

विश्व हिन्दी दिवस-2022 समारोह का आयोजन

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में प्रति वर्ष तरह 10 जनवरी 2022 को विश्व हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विश्व हिन्दी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. शुभदा वांजपे जी, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, निदेशक, पखनि डॉ. दीपक कुमार सिन्हा, डॉ. सुनील कुमार, अपर निदेशक(अनुसंधान व विकास), द्वारा विधिवत् रूप से दीप प्रज्वलित कर विश्व हिन्दी दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया। मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी, श्री अंजनी कुमार ने इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का स्वागत किया।

अपर निदेशक-(अनु.व वि.) डॉ. सुनील कुमार, अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व हिन्दी दिवस समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए जागरुकता पैदा करना और हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है।



मुख्य अतिथि प्रो. शुभदा वांजपे द्वारा दीप प्रज्वलन

डॉ. दीपक कुमार सिन्हा, निदेशक, पखनि सभा को संबोधित करते हुए



सभा को संबोधित करती हुयी प्रो. शुभदा वांजपे

मुख्य अतिथि का स्मृति-चिह्न से सम्मान

अपने अध्यक्षीय भाषण में पखनि के निदेशक डॉ. दीपक कुमार सिन्हा ने मुख्य अतिथि का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कार्यालय में

राजभाषा का कार्यान्वयन न केवल एक सांविधिक आवश्यकता है बल्कि भारतीय भाषाओं में सरकारी काम करने से जनता को सरकार से सीधे जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पखनि राजभाषा विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी राजभाषा हिन्दी संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि पखनि में कार्यरत सभी वैज्ञानिक अधिकारी अपने अनुसंधान एवं अन्वेषण कार्यों के अतिरिक्त अपना दैनिक कार्य जैसे पत्राचार, हिन्दी टिप्पण आदि कार्य हिन्दी में करते हैं। पखनि में हर वर्ष नियमति रूप से दो हिन्दी वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है तथा संगोष्ठियों में प्रस्तुत शोधपत्रों को संकलित कर उसे स्मारिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

मुख्य अतिथि डॉ. शुभदा वांजपे जी, पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, ने अपने रोचक व ज्ञानवर्धक व्याख्यान में हिन्दी के क्रमिक विकास व अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए जिसकी सभी ने सराहना की। अंत में डॉ. दीपक कुमार सिन्हा ने अतिथिवक्ता डॉ. शुभदा वांजपे जी, को शाल एवं स्मृति चिह्न प्रदानकर सम्मानित किया। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन श्री एम. सतीश कुमार, उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा किया गया।